

अहिल्यापुर में पकड़ी गई नकली शराब फैक्ट्री

Publish Date: Mon, 05 Aug 2019 08:13 PM (IST)



एसडीपीओ जीतवाहन उरांव के नेतृत्व में अहिल्यापुर एस आई प्रदीप कुमार महतो समेत पुलिस बल के सहयोग से दो अलग अलग जगहों पर छापेमारी किया गया। जिसमें देवपुर मोड़ के पास मोटर

अहिल्यापुर (गिरिडीह) : अवैध रूप से नकली विदेशी शराब बनाने व उसके कारोबार पर लगाम लगाने को लेकर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीतबाहन उरांव के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाई गई। इसके तहत थाना क्षेत्र के भंडारीडीह गांव स्थित पिड़यानशेर में नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया गया। छापेमारी अभियान के क्रम में पुलिस की टीम दो अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की। देवपुर मोड़ के कोरबा झितरी निवासी लीलामणि मंडल के मोटरसाइकिल गैरेज से काफी मात्रा में नकली शराब की बोतलें व नकली शराब बनाने वाली सामाग्री बरामद की गई। साथ ही भंडारीडीह गांव के पिड़यानशेर टोला के जंगल किनारे स्थित बबलू मुर्मू के खपरैल मकान से अधिक मात्रा में केमिकल, बोतल, ढक्कन, नकली शराब बनाने की मशीन, स्पिरिट से भरा ड्रम, 16 पेटी अवैध विदेशी शराब, डेढ़ सौ बोतल पैक किया हुआ शराब, खाली बोतल, स्टीकर, बड़ा ड्रम, बड़ा गैलेन, पैकिंग किट, जार, स्टील ड्रम समेत अन्य सामाग्री बरामद की गई। इस संबंध में एसडीपीओ ने बताया कि अहिल्यापुर थाना क्षेत्र में अवैध विदेशी नकली शराब बनाने व उसके कारोबार करने की गुप्त सूचना मिली थी। जिसके आधार पर पुलिस अवर निरीक्षक प्रदीप कुमार महतो समेत अन्य पुलिस बलों के सहयोग से दोनों स्थानों पर छापेमारी की गई। जब्त सामानों को अहिल्यापुर थाना में रखा गया है। छापेमारी की भनक लगते ही इस धंधे से जुड़े कारोबारी फरार हो गए। पुलिस की टीम जब वहां छापेमारी करने पहुंची तो घर के बाहर ताला लगा था। पुलिस की टीम ने ताले को तोड़कर जब अंदर प्रवेश की तो वहां की स्थिति देख अचंभित रह गई। घर के अंदर कहीं पैकिंग किट पसरा हुआ था तो कहीं बोतल में शराब भरने की प्रक्रिया जारी थी। दर्जनों पेटियां तैयार शराब रखे थे। छापेमारी के बाद एसडीपीओ ने बताया कि इस फैक्ट्री में अवैध शराब का निर्माण कर बहुत बड़े स्तर पर नकली शराब बनाने का कारोबार किया जा रहा था। इस अवैध कारोबार में संलिप्त आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस छापेमारी अभियान के बाद इस तरह के अवैध कारोबार में लगे लोगों में हडकंप मच गया है।

Posted By: **Jagran**

Source: <https://www.jagran.com/jharkhand/giridih-sarab-baramad-19463601.html>